



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2011/माघ 15, 1932

No. 17]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2011/MAGHA 15, 1932

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2011

फा. सं. सम्मे. 5(15) 2004/ओआर/33113.—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, इसके आगे "योजना" के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (1) के उपबंधों के अनुसार एवं भारत के राजपत्र, खण्ड III, भाग 4 में क्रमशः दिनांक 30-9-2006 तथा 19-5-2008 को प्रकाशित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(15)2004/ओआर/13076, दिनांक 7-9-2006 तथा अधिसूचना संख्या 5(15)2004/ओआर/3197, दिनांक 5-5-2008 का अधिक्रमण करते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि), एतद्द्वारा उड़ीसा राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यथा :—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम एवं पदनाम	नियुक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य सचिव/आयुक्त एवं सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, उड़ीसा सरकार, सचिवालय, भुवनेश्वर ।	अध्यक्ष [अनुच्छेद 4 (1)(क) के अन्तर्गत]
2.	श्रम आयुक्त, उड़ीसा, यूनिट-III, भुवनेश्वर ।	सरकारी सदस्य [अनुच्छेद 4 (1)(ख) के अन्तर्गत]
3.	निदेशक, फैक्टरी एवं बायलर्स, यूनिट-III, भुवनेश्वर ।	
4.	श्री एम.सी. गोयल, कार्यकारी उपाध्यक्ष, जे.के. पेपर मिल्स, पोस्ट-रायगडा-761057 ।	सदस्य नियोक्ता के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4 (1)(ग) के अन्तर्गत]
5.	श्री जगतानन्द मोहापात्रा, प्रबंधक निदेशक, आनंद इंडस्ट्रियल गैसेस, मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट, भुवनेश्वर ।	

(1)	(2)	(3)
6.	श्री राम-चन्द्र खुंटिया, अध्यक्ष, राज्य इंटक, महात्मा गाँधी रोड, 5 आर. एफ., क्वार्टर संख्या-1, यूनिट-3, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।	सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि [पैरा 4(1)(घ) के अन्तर्गत]
7.	श्री लंबोदर मायक, अध्यक्ष, सौद्र, प्लॉट संख्या 251, यूनिट - 3, भुवनेश्वर।	
8.	श्री बी.के. सिंह, अध्यक्ष, उत्कल बैंक ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, एन/6, आई आर सी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751015, उड़ीसा।	अतिरिक्त सदस्य नियोक्ता के प्रतिनिधि [कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 4(1) परंतुक के अंतर्गत]
9.	श्री डोला भंजन भांजा, महा प्रबंधक (एच ए), नाल्को, कार्पोरेट कार्यालय, भुवनेश्वर।	
10.	श्री सत्य सुन्दर मोहंती, कार्यकारी निदेशक (पी एण्ड ए), एस. ए. आई. एल., आर. एस. पी., राठरकेला।	अतिरिक्त सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि [कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 4 (1) परंतुक के अंतर्गत]
11.	श्री जोगेन्द्र त्रिपाठी, महा सचिव, एच. एम. एस., वी-ए, 8/1, यूनिट-2, भुवनेश्वर।	
12.	श्री द्युतिकृष्णा पांडा, अध्यक्ष, एटक, क्वार्टर संख्या एफ, 5/2, एम. एल. ए. कालोनी, यूनिट-4, भुवनेश्वर।	
13.	श्री श्रीकांत ब्रह्मा, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, क्वार्टर संख्या वी-ए 23/3, अशोक नगर, यूनिट-2, भुवनेश्वर।	

2. उड़ीसा क्षेत्र के प्रभारी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय-भुवनेश्वर, उड़ीसा, क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.), उड़ीसा राज्य के सचिव होंगे।

3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा। तथापि, प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती।

4. यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन III/4/187/10/असा.]

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2011

F. No. Conf. 5 (15) 2004/OR/33113.—In accordance with the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(15)2004/OR/13076, dated 7-9-2006 and Notification No. 5 (15)2004/OR/3197/ dated 5-5-2008 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, which were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on 30-9-2006 and dated 19-5-2008 respectively, the Chairman, Central Board of Trustees, (EPF) hereby sets up a Regional Committee for the State of Orissa consisting of the following persons, namely:—

Sl. No.	Name and Designation of the Member	Appointment as
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Secretary/Commissioner-com-Secretary to Government Labour and Employment Department, Government of Orissa, Secretariat, Bhubaneswar	Chairman [Under Para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner, Orissa, Unit-III, Bhubaneswar	Official Member [Under Para 4 (1) (b)]
3.	Director, Factories and Boilers, Unit-III, Bhubaneswar	
4.	Sri M. C. Goel, Executive Vice-President, J.K. Paper Mills, At/PO-Rayagada- 761057	Member (Employers' representatives) [under Para 4 (1)(c)]
5.	Sri Jagatananda Mohapatra, Managing Director, Ananda Industrial Gases, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar	
6.	Sri Rama Chandra Khuntia, President, State INTUC, Mahatma Gandhi Road, 5 RF, Quarter No. 1, Unit 3, Bhubaneswar-751001, Orissa.	Member (Employees' Representatives) [Under Para 4 (1)(d)]
7.	Sri Lambodar Nayak, President, CITU, Plot No. 251, Unit-3, Bhubaneswar	
8.	Sri B.K. Singh, President, Utkal Chamber of Commerce and Industry, N/6, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar-751015, Orissa	Additional Member Employers' Representatives [Under Proviso to Para 4 (1) of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952]
9.	Shri Dola Bhanjan Bhanja, General Manager (HA), NALCO, Corporate Office, Bhubaneswar	
10.	Sri Satya Sunder Mohanty, Executive Director (P & A), SAIL, R.S.P., Rourkela.	Additional Member Employers' Representatives [Under Proviso to Para 4 (1) of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952]
11.	Sri Jogendra Tripathy, General Secretary, H.M.S., V-A, 8/1, Unit-2, Bhubaneswar	
12.	Sri Dyutikrushna Panda, President, AITUC, Qr. No. F, 5/2, MLA Colony, Unit 4, Bhubaneswar	
13.	Sri Srikanta Brahma, President, B.M.S., Qr. No. V-A. 23/3, Ashok Nagar, Unit-2, Bhubaneswar	

2. The Regional Provident Fund Commissioner—In charge of Orissa Region at Regional Office, Bhubaneswar, Orissa shall be the Secretary of the Regional Committee (EPF) for the State of Orissa.

3. The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

4. This will come into force with immediate effect.

S. CHATTERJEE, Central Provident Fund Commissioner
[ADVT. III/4/187/10/Exty.]